

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935

No. 269]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2014

का.आ. 327 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) भारत सरकार की तारीख 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ) का और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 से 32 और उनसे संबंधित प्रविष्टियां निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त

1. डॉ. ए. जयतिलक,

अध्यक्ष

आई.ए.एस.

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त

2. रिक्त सदस्य
(लोक सभा से निर्वाचित किए जाने के लिए)
3. रिक्त सदस्य
(लोक सभा से निर्वाचित किए जाने के लिए)
4. श्री थंगावेलु
संसद सदस्य सदस्य
राज्य सभा

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के अधीन नियुक्त

5. निदेशक या उप सचिव, सदस्य
निर्यात संवर्धन का प्रभारी (कृषि प्रभाग),
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त

6. श्री संजीव चोपड़ा सदस्य
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक
(राष्ट्रीय बागवानी मिशन)
कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (iii) के अधीन नियुक्त

7. निदेशक या उप सचिव, सदस्य
वित्त प्रभाग के प्रभारी,
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त

8. श्री विजू जैकब, सदस्य
निदेशक,
मै0 सिंथाइट इंडस्ट्रीज लि0,
कोलेनचेरी, एर्णाकुलम, केरल
9. श्री भास्कर शाह, सदस्य
प्रबंधन निदेशक,
मै0 जैब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लि0,
नवी मुम्बई, महाराष्ट्र
10. श्री अजीत थोमस सदस्य
मै0 ए.वी.टी.एम.वी कोर्मिक इन्ग्रेडियेंट्स
प्रा.लि., चेन्नई

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 11. | श्री ई.के. वासु
इल्लीकाल हाउस
कैल्लर पी.ओ.नेदुमकंदन
जिला-इडुक्की, केरल | सदस्य
01/05/2015 तक |
| 12. | श्री कुमारलाल एम.तहिलिआनी
साझेदार मै0 एशियन खाद्य उद्योग
एन. एच. सं. 8 एस्कोर्ट ट्रेक्टर्स के सामने
दाबहान नादियाद, के. हेडा, गुजरात | सदस्य |
| 13. | श्री डी.वी.आर.राजीव मोहन
मै0 आईटीसी लिमिटेड,
पश्चिमी बंगाल | सदस्य |
| 14. | श्री मान सिंह परसोदा
मुख्य डाकघर के सामने
कर्नल गंज, गुना
(मध्य प्रदेश) | सदस्य
01/05/2015 तक |
| 15. | श्री जोजा जार्ज
पट्टमकुलम, एस्टेट क्रोटिफकल
पी.ओ., कोट्टायम, केरल, | सदस्य |
| 16. | श्री अंजो जोस
पूर्व निदेशक, एम ए एस एन्टरप्राइसेज़
केरल | सदस्य |
| 17. | श्री के. जियाउद्दीन अहमद
संयुक्त प्रबंधक निदेशक
मै0 के.सी.पी.एम.सी. लि0, बोधीनायकनूर
थेनी, तमिलनाडू | सदस्य |
| नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ड.) के अधीन नियुक्त | | |
| 18. | सुश्री अनिता करनावर
अध्यक्ष, ए आर एस इन्टरनेशनल,
केरल | सदस्य |
| 19. | सुश्री विजलक्ष्मी ,
कर्नाटक | सदस्य |
| 20. | डॉ. हातोबिन माई
नाहरलगून, अरुणाचल प्रदेश | सदस्य |
| 21. | डॉ. माथ्यू सामुअल कलारिक्कल
कलारिक्कल एस्टेट, पुलयनमला
इडुक्की जिला, केरल | सदस्य |
| 22. | श्री रावल गोपाल कृष्ण
नेकल्लु (पीओ),
तुल्लरु मंडल, गुन्टूर जिला,
आंध्र प्रदेश | सदस्य |
| 23. | ई. एम. आगस्टनी, एडवोकेट
पूर्व एमएलए, इडामानाकुनेल,
पी ओ: थोभारायार
कट्टापपना, इडुक्की, केरल | सदस्य |

24. श्री बी एम मुनिराजू, सदस्य
चिक्काती ग्राम एवं पोस्ट,
होबली, गुण्डुलूपेट तालुक,
कामराज नगर,
कर्नाटक

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त

25. उत्तर प्रदेश राज्य से एक प्रतिनिधि सदस्य

26. आन्ध्र प्रदेश राज्य से एक प्रतिनिधि सदस्य

27. सिक्किम राज्य से एक प्रतिनिधि सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (i) के अधीन नियुक्त

28. श्रीमती सुतापा मजूमदार सदस्य
निदेशक (आई.ई.),
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त

29. निदेशक, सदस्य
भारतीय पैकेजिंग संस्थान,
मुम्बई

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (iii) के अधीन नियुक्त

30. निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान,
मैसूर

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (iv) के अधीन नियुक्त

31. निदेशक, सदस्य
नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर स्पाइसेज,
कालीकट

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त

32. श्री जॉर्ज करीमात्तम, सदस्य
करीमात्तम हाऊस पी.ओ. इडुक्की,
केरल

[फा.सं. 5/10/2012-ईपी(कृषि-V)]

जे.एस. दीपक, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना की अधिसूचना सं. का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें बाद में संशोधन किया गया:-

1. का.आ. 1159(अ) तारीख 21 जुलाई, 2006
2. का.आ. 424(अ) तारीख 04 मार्च, 2008
3. का.आ. 2161(अ) तारीख 05 सितम्बर, 2008
4. का.आ. 937(अ) तारीख 08 अप्रैल, 2009
5. का.आ. 3081(अ) तारीख 03 दिसम्बर, 2009

6. का.आ. 32(अ) तारीख 07 जनवरी, 2010
7. का.आ. 1439(अ) तारीख 15 जून, 2010
8. का.आ. 8(अ) तारीख 03 जनवरी, 2011
9. का.आ. 501(अ) तारीख 10 मार्च, 2011

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2014

S.O. 327 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as Members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:—

In the said notification, for serial numbers 1 to 32 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“Appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. A. Jayathilak, IAS.
Appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 | Chairman |
| 2. Vacant

(To be elected by Lok Sabha) | Member |
| 3. Vacant | Member
(To be elected by Lok Sabha) |
| 4. Sh. Thangavelu,
Member of Parliament,
Rajya Sabha. | Member |
| Appointed under sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 5. Director/Deputy Secretary,
Incharge of Export Promotion (Agriculture
Division), Department of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry ,
New Delhi. | Member |
| Appointed under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 6. Shri Sanjeev Chopra,
Joint Secretary and Mission Director (NHM),
Ministry of Agriculture and Cooperation,
Department of Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi. | Member |
| Appointed under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 7. Director/Deputy Secretary,
Incharge of Finance Division,
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce, New Delhi. | Member |
| Appointed under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4 | |
| 8. Mr. Viju Jacob,
Director of M/s. Synthite Industries Ltd.,
Kolencherry, Ernakulam, Kerala . | Member |

- | | |
|---|-------------------------|
| 9. Mr. Bhaskar Shah, Managing Director ,
M/s. Jabs International Pvt. Ltd.,
Navi Mumbai, Maharashtra. | Member |
| 10. Mr. Ajith Thomas,
M/s. A.V.T.MV Cormick Ingredients Pvt. Ltd.,
Chennai . | Member |
| 11. Shri E.K. Vasu,
Illikkal House,
Kallar P.O., Nedumkandan,
Distt. Idukki, Kerala. | Member up to 01/05/2015 |
| 12. Mr. Kumarlal M Thailiani,
Partner, M/s. Asian Food Industries,
N.H. No. 8, Opp. Escort Tractors,
Dabhaan, Nadiad, K. Heda,
Gujarat. | Member |
| 13. Mr. D.V.R. Rajiv Mohan,
M/s ITC Limited,
West Bengal . | Member |
| 14. Shri Man Singh Parsoda,
In front of Head Post Office,
Colonnel Ganj, Guna,
(Madhya Pradesh) . | Member up to 01/05/2015 |
| 15. Sh. Jojo George,
Pattamkulam
Estate Krottifckal,
P.O. Kottayam, Kerala. | Member |
| 16. Mr Anjo Jose ,
Ex Director, MAS Enterprises,
Kerala . | Member |
| 17. Sh K. Zia-ud-Din Ahamed ,
Joint MD,
M/s. K.C.P.M.C. Ltd., Bodinayakanur,
Theni, Tamil Nadu . | Member |
| Appointed under clause (e) of sub- rule (1) of rule 4 | |
| 18. Ms. Anita Karnava,
President, ARS International,
Kerala. | Member |
| 19. Ms. Vijayalaxmi,
Karnataka . | Member. |
| 20. Dr. Hatobin Mai,
Nahrlagun,
Aurnachal Pradesh . | Member |
| 21. Dr. Mathew Samuel Kalarickal,
Kalarickal Estate, Pulyanmala,
Distt. Idukki, Kerala . | Member |
| 22. Shri Ravel Gopala Krishna,
Nekkallu (PO),
Thulluru Mandal, Guntur Dist.,
Andhra Pradesh . | Member |
| 23. Adv. E.M. Augastny,
Ex. MLA, Edamanakunnel,
Thovarayar PO
Kattappana, Idukki, Kerala . | Member |

24. Shri B.M. Muniraju, Member
Chikkati Village and Post,
Hobli, Gundlupet Taluk,
Chamaraja Nagar,
Karnataka .

Appointed under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4

25. A representative from the State of Uttar Pradesh. Member
26. A representative from the State of Andhra Pradesh. Member
27. A representative from the State of Sikkim . Member

Appointed under sub-clause (i) of clause (g) of sub-rule (1) of rule 4

28. Mrs. Sutapa Majumdar, Member
Director (IE),
Planning Commission,
Yojana Bhavan,
New Delhi .

Appointed under sub-clause (ii) of clause (g) of sub-rule (1) of rule 4

29. Director of the Indian Institute of Packaging, Member
Mumbai .

Appointed under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-rule (1) of rule 4

30. Director of the Central Food Technological Research Institute, Member
Mysore .

Appointed under sub-clause (iv) of clause (g) of sub-rule (1) of rule 4

31. Director of the National Research Centre for Spices, Member
Calicut

Appointed under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4

32. Shri George Karimattom, Member
Karimattom House, P.O. Idukki,
Kerala

[F. No. 5/10/2012-EP (Agri-V)]

J.S. DEEPAK, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S.O 123 (E), dated the 26th February , 1987 and subsequently amended by the following numbers:

- (1) S.O. 1159(E), dated 21.07.2006;
(2) S.O. 424(E), dated 04.03.2008;
(3) S.O. 2161(E), dated 05.09.2008;
(4) S.O. 937(E), dated 08.04.2009;
(5) S.O. 3081(E), dated 03.12.2009;
(6) S.O. 32(E), dated 07.01.2010;
(7) S.O. 1439(E), dated 15.06.2010;
(8) S.O. 8(E), dated 03.01.2011;
(9) S.O. 501(E), dated 10.03.2011;